

IWL: NOI: 2025

5th September, 2025

The Secretary BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai 400 001	The Secretary National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra (E) Mumbai 400 051
---	---

Scrip code: 539083**Scrip code: INOXWIND**

Sub: Submission of copies of newspaper advertisements confirming dispatch of Notice of 16th Annual General Meeting (AGM) scheduled to be held on Friday, 26th September, 2025 at 3:30 P.M (IST)

Dear Sirs,

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisements published on 5th September, 2025 in Financial Express (All Editions) in English language and Himachal Dastak (Dharamsala Edition) in Hindi language, with respect to:

- i. Completion of dispatch of notice of AGM and Annual Report for the FY 2024-25; and
- ii. E-voting information relating to the AGM of the Company.

The above advertisements have been published in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rules framed thereunder.

The above information is also made available on the website of the Company at www.inoxwind.com.

You are requested to take the above on record.

Thanking You

Yours faithfully,
For **Inox Wind Limited**

Deepak Banga
Company Secretary

Encl.: As above

ORAVEL STAYS LIMITED

Registered Office: Ground Floor-001, Mauryanah Elanza, Shyamal Cross Road, Near Parekh Hospital, Satellite, Ahmedabad, Gujarat - 380015, India
Corporate office: 4th Floor, Spaaz Palazo, Sector 69, Gurugram, Haryana 122001 India
CIN: U63090GJ2012PLC107088 | **Phone:** 079-4100502 & 0124-4487253
Email: secretarial@oyorooms.com | www.oyorooms.com

NOTICE OF 14th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the **14th (Fourteenth) Annual General Meeting ("AGM")** of the shareholders of Oravel Stays Limited ("the Company") will be held through Video Conferencing ("VC") or Other Audio-Visual Means ("OAVM") on **Friday, September 26, 2025 at 5:30 PM (IST)** through Video Conferencing/other audio visual means (VC/OAVM), in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), in this regard, from time to time, to transact the businesses as set out in the AGM Notice. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

The Notice of the 14th AGM along with the Annual Report of the Company for the Financial Year 2024-25, has been sent only by email/electronic form to all the members whose names appear in the Register of Members as of **Friday, August 29, 2025** and e-mail addresses are registered with the Company/RTA/Depository Participants. The requirement to send physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide MCA circulars. The documents are also available on the Company's website at <https://www.oyorooms.com/investor-relations> and the website of M/s. MUFG Intime India Private Limited (Formerly Link Intime India Private Limited), i.e. <https://instavote.linkintime.co.in/>.

The Company is providing its members with the facility of remote e-voting (electronic voting system from a place other than AGM venue) before the AGM and e-voting during the AGM in respect of the businesses to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed M/s. MUFG Intime India Private Limited as the Voting Agency for facilitating voting through electronic means. The instructions for voting electronically and joining the AGM are provided in the AGM Notice. Members are further informed that:

- The businesses as set out in the notice of AGM will be transacted through electronic voting.
- The Cut-off Date for determining the eligibility of the members who are eligible to vote by electronic means is **Friday, September 19, 2025** ("Cut-off" date).
- The remote e-voting will commence on **Monday, September 22, 2025 at 9:00 A.M.** (IST) and ends on **Thursday, September 25, 2025** (IST). The remote e-voting module shall be disabled thereafter by the Voting Agency for voting. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
- The voting facility shall also be made available during the AGM, and the Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right during the Meeting. Any person whose name is recorded in the Register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the Cut-off date shall be entitled to avail the facility of either remote e-voting (before the AGM) or e-voting during the AGM.
- Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice and holds shares as on the Cut-off date may obtain the login-id and password for e-voting by sending a request to rtas@enlcses@n.mgms.mufg.com. A person who is not a Member as of the Cut-off date should treat the Notice of the AGM only for information purposes only.
- Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting electronically, but shall not be entitled to vote again at the AGM.
- The same login credentials for e-voting, may also be used to attend the AGM through VC/OAVM. Members who have not yet registered their e-mail addresses are requested to update the same with their Depository Participant (for shares held in dematerialised form) or with M/s. MUFG Intime India Private Limited Link Intime Pvt. Ltd ("RTA") (for shares held in physical form). For any queries/grievances regarding remote e-voting, the members may write an email to the undersigned at secretarial@oyorooms.com or may call on +91-22-49186000 (Extn: 2505) or send a request to Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Vice President - e-voting (MUFG Intime) at enlcses@n.mgms.mufg.com at C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400083, Maharashtra, India. The members are requested to carefully read all the notes set out in the notice of EGM and in particular, instructions for joining EGM through VC/OAVM and the manner of casting votes through e-voting.

For Oravel Stays Limited
Sd/-
Shivam Kumar
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Gurugram
Date: September 4, 2025

ARYAMAN FINANCIAL SERVICES LIMITED

Regd Office: 102, Ganga Chambers, 6A/1, W.E.A., Karol Bagh, New Delhi - 110 005.
Corporate Office: 60, Khatau Building, Ground Floor, Alkesh Dinesh Modi Marg, Fort, Mumbai - 400 001.
Tel.: 022- 6216 6999 | **Fax:** 022 - 2263 0434 | **Email:** info@afsl.co.in | **Website:** www.afsl.co.in

NOTICE

Notice is hereby given that:

A. ANNUAL GENERAL MEETING:
 The Notice is hereby given that **31st Annual General Meeting ("AGM")** of Aryaman Financial Services Limited ("the Company") is scheduled on **Thursday, September 25, 2025 at 11:30 A.M.** through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the business specified.

The Notice of AGM along with the Annual Report for the financial year (F.Y.) 2024-25 will be sent to Members in electronic form to the Email-IDs registered with their Depository Participants (in case of electronic shareholding)/the Company's Registrar and share transfer Agent (in case of physical shareholding). For members whose Email IDs are not registered, we request shareholders to update their email ids with the depositories/RTA as soon as possible. The Notice and Annual Report may also be accessed on the website of the company at www.afsl.co.in and website of National Securities Depository Limited ("NSDL") www.evoting.nsdl.com and Bombay Stock Exchange (BSE) at <https://www.bseindia.com/>.

B. REMOTE E-VOTING:
 In compliance with the provision of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the rules made there under and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, The Company has offered remote e-voting facility for transacting the business through National Securities Depository Limited (NSDL) to enable the members to cast their votes electronically. Necessary arrangements have been made by the company with NSDL to facilitate e-voting. The details pursuant to the act are as under:

- The e-voting period will commence on Sunday, September 21, 2025 (9:00 A.M.) and ends on Wednesday, September 24, 2025 (5:00 P.M.) IST. Thereafter, the e-voting module will be disabled.
- The voting rights of Members shall be in proportion to their share of Paid-up capital of the Company as on the cut-off date Thursday, September 18, 2025. Once a vote is cast by the member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.
- Any member who becomes a member of the Company after dispatch of Notice and holding shares as on cut-off date may write to NSDL on the e-mail ID i.e. evoting@nsdl.com in requesting for the User ID and password. If the member is already registered with NSDL for e-voting, the member can use the existing User ID and Password for casting their vote through Remote e-voting. The detailed procedure pertaining to the User ID and Password is also provided in the Notice of the AGM. For more information, kindly refer Notice of the meeting available on the company's website and NSDL.

C. BOOK CLOSURE:
 Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer books shall remain closed from, Thursday, September 18, 2025 to Wednesday, September 24, 2025 (both days inclusive) for the purpose of 31st Annual General Meeting.

For Aryaman Financial Services Limited
Sd/-
Reenal Khandelwal
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Delhi
Date : September 03, 2025

CL EDUCATE LIMITED

CIN: L74899DL1996PLC425162
Registered and Corporate Office: A-45, First Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate, New Delhi - 110044, Tel: +91 (11) 4128 1100, Fax: +91 (11) 4128 1101, E-mail: compliance@cleducate.com, Website: www.cleducate.com

NOTICE OF THE 29th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERRING ("VC") / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM")

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT:

- The Twenty-Ninth (29th) Annual General Meeting ("AGM") of CL Educate Limited ("the Company") is scheduled to be held on Tuesday, September 30, 2025 at 10:00 A.M. (IST) through VC/OAVM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder read with the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020 and subsequent Circulars issued in this regard, the latest being 09/2024 dated September 19, 2024 (collectively referred to as "MCA Circulars") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Master Circular dated July 11, 2023 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 (collectively referred to as "SEBI Circulars"), to transact the businesses that will be set forth in the Notice convening the AGM which will be circulated shortly.
- The Notice of the AGM and the Annual Report for the Financial Year 2024-25 will be sent by electronic mode to all the shareholders whose names appear in the Company's Register of Members as at the closing hours of business on Friday, August 29, 2025, and whose email IDs are registered with the Company/ Depository Participants ("DPs"). The said Notice of the AGM and Annual Report will also be available on the website of the Company- www.cleducate.com, on the websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com, and on the website of the Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited ("Kfin" or "RTA") at <https://evoting.kfintech.com/>.
- Manner of registering KYC Details including Bank Account Details:**
 Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their KYC details including email ID, mobile number and Bank account details with their respective Depository Participants.
 Shareholders holding shares in physical mode, who have not registered or updated their KYC details like PAN, address, email ID and mobile number are requested to provide duly signed Form ISR-1, Form ISR-2 along with supporting documents to the Company's RTA, details as provided below:
 Telephone: 1800 309 4001, e-mail: einward.ris@kfintech.com, Website: <https://ris.kfintech.com/client-services/mobileereg/mobilemailreg.aspx>.
- Manner of casting vote(s) through e-voting:**
 Members can cast their votes electronically on the businesses that will be set forth in the Notice of AGM through remote e-voting/voting during AGM. The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses will be provided in the Notice of the AGM.
- Dividend:**
 Since no dividend is being declared for the Financial Year 2024-25 at the AGM, hence the mandate on the manner of receipt of dividend is not being sought from the Members.

For CL Educate Limited
Sd/-
Gautam Puri
Vice Chairman & Managing Director
DIN: 00033548

Place: New Delhi
Date: September 05, 2025

DYNAMIC SERVICES & SECURITY LIMITED

CIN: L74999WB2016PLC218387
Regd. Office: 375, Dakshindari Road, Kolkata - 700048, West Bengal, India
Corporate Office: Unit No. 708, 7th Floor, ECO Centre, Block-EM-4 Sector-V, Salt Lake, Kolkata-700091, West Bengal, India
Website: www.dsslind.in Email ID: cs@dsslind.in Phone No.: 033 - 4008 7463

NOTICE OF 9th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the **9th Annual General Meeting** of the Members of DYNAMIC SERVICES & SECURITY LIMITED will be held on **Friday, 26th September 2025 at 01:00 P.M. (IST)** through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and other applicable Circulars issued by SEBI and MCA Circulars No.20/2020 and 10/2022 dated May 5, 2020 and 28th December, 2022 and Circular No.09/2023 dated 25th September, 2023 respectively. The members can attend and participate in the AGM only through VC/OAVM as no provision has been made to attend the AGM in person. The attendance through VC / OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum for the AGM. In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2024-25 inter alia comprises of Audited Standalone and Consolidated Financial Statements of the Company for the Financial Year ended March 31, 2025, together with the Reports of Board of Directors and Auditors thereon are being sent only through electronic mode to those Shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories, unless any Member has requested for a physical copy of the same. The aforesaid documents will also be available on the website of the Company at www.dsslind.in, websites of the Stock Exchange i.e., www.nseindia.com and on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the AGM) i.e., www.evoting.cdsl.com.

Members who are holding shares in physical form and who have not registered their email addresses with the Company can obtain Notice of AGM, Annual Report, and/or login details for joining the AGM through the VC/OAVM facility, including e-voting, by sending necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) by email to Company/ M/s Cameo Corporate Services Limited (RTA) email id at cameo@cameoindia.com.

Those members who have not registered their e-mail addresses and mobile nos. may please contact and validate/update their details with the DP in case of shares held in demat form and members holding shares in physical form are requested to update the same with the Registrar and Share Transfer Agent or with the Company.

Pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and Section 91 of the Companies Act, 2013 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Saturday, 20th September 2025 to Friday, 26th September 2025 (both days inclusive)** for the purpose of AGM of the Company.

The remote e-voting period commences on **Tuesday, 23rd September 2025 at 10:00 A.M.** and ends on **Thursday, 25th September 2025 at 5 P.M.** During this period members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) of **19th September, 2025** may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Members, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.

The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their e-mail address will be provided in the notice of the AGM. The details will also be available on the website of the Company at www.dsslind.in, and on the website of RTA email id cameo@cameoindia.com and CDSL email id at www.evoting.cdsl.com.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evoting.cdsl.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

For and on Behalf of the Board of Directors
Dynamic Services & Security Limited
Sd/-
Karishma Sharma
Company Secretary & Compliance Officer

Date: 02.09.2025
Place: Kolkata

INOX WIND LIMITED

Regd. Off.: Plot No. 1, Khasra Nos. 264 to 267, Industrial Area, Village Basal, District Una - 174303, Himachal Pradesh
CIN: L31901HP2009PLC031083 | **Tel:** 01975-272001 | **Email:** investors.twl@inoxwind.com | **Website:** www.inoxwind.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS REGARDING 16th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the **Sixteenth Annual General Meeting (AGM)** of the Company will be held on **Friday, 26th September, 2025 at 03:30 P.M. (IST)** through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM) facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with relevant Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). Members will be able to attend the AGM through VC/ OAVM facility only.

The Notice of 16th AGM and the Annual Report of the Company for the Financial Year 2024-25 has been sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company or Depositories. Further, in accordance with Regulation 36(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a physical letter has been sent to the shareholders whose email addresses are not registered with the Company/Depositories/RTA providing a web-link and exact path for accessing the Annual Report FY 2024-25. These documents are also available on the websites of the Company; www.inoxwind.com, Stock Exchanges i.e. BSE Limited; www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited; www.nseindia.com and National Securities Depository Limited (NSDL); www.evoting.nsdl.com. The Annual Report of the Company for the Financial Year 2024-25 can be accessed at https://inoxwind.com/uploads/2025/09/638926103805983128_Inox%20Wind%20Limited_Annual%20Report-2024-25.pdf.

The Company has arranged e-Voting facility ("remote e-Voting" and "e-Voting during the AGM") for all its Members holding shares in physical or demat mode, as on the Cut-off date i.e. Friday, September 19, 2025 through the e-Voting platform of NSDL in respect of the Resolutions to be passed at the AGM. Only Members holding shares of the Company as on the above mentioned Cut-off date shall be entitled to avail the e-Voting facility. Voting rights (for e-Voting facility) shall be reckoned on the paid-up value of the shares registered in the name of the Member(s) of the Company as on the Cut-off date. All eligible Members are requested to note following schedule of e-Voting facility:

Particulars	Date
Date of completion of dispatch of Notice and Annual Report for FY 2024-25	September 4, 2025
Date and time of commencement of remote e-Voting	September 22, 2025 at 09:00 A.M.
Date and time of end of remote e-Voting	September 25, 2025 at 05:00 P.M.
Date of e-Voting during AGM	September 26, 2025
Date of declaration of result	Within 2 working days of conclusion of AGM

All eligible Members and persons who become Members of the Company after the dispatch of the Notice may follow the instructions for e-Voting facility, manner of attending/ joining AGM through VC/ OAVM and registering/ updating email address and phone number of Members as mentioned in the Notice of AGM. The Members who cast their vote by remote e-Voting may attend the Meeting through VC/ OAVM but shall not be entitled to cast their vote again during the AGM. Vote once casted by the Member shall not be allowed to be changed subsequently. Please note that remote e-Voting shall be disabled by the NSDL beyond the date and time specified in the above schedule.

Members having any grievance connected with e-voting may contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, Trade World, "A" Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013 at the designated email ID evoting@nsdl.com or may call at 022 - 48867000.

For Inox Wind Limited
Sd/-
Deepak Banga
Company Secretary

Place: Noida
Date : September 4, 2025

NALWA SONS INVESTMENTS LIMITED

CIN: L65993DL1970PLC14644
Regd. Office: 28 Najafgarh Road, Moli Nagar Industrial Area, New Delhi - 110 015
Phone No.: (011) 45021854, 45021812
Branch office: O.P. Jindal Marg, Hisar - 152005, Haryana
Phone No.: (01662) 222471-83
Email ID: investorcare@nalwasons.com, **Website:** www.nalwasons.com

NOTICE OF 54th ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that:

- The 54th Annual General Meeting ("AGM") of Nalwa Sons Investments Limited ("the Company") will be held on **Monday, 29th September, 2025 at 11:30 A.M.** (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder read with circular issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") dated 8th April, 2020 read with circulars dated 13th April, 2020, 5th May, 2020, 15th June, 2020, 28th September, 2020, 13th January, 2021, 14th December, 2021, 5th May, 2022, 28th December, 2022, 25th September, 2023, 19th September, 2024 and all other relevant circulars (collectively referred to as "MCA Circulars"), the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and circulars dated 12th May, 2020, 15th January, 2021, 13th May, 2022, 5th January, 2023, 7th October, 2023 and 3rd October, 2024 issued by the SEBI (collectively referred to as "SEBI Circulars"), without physical presence of the Members at a common venue.
- In terms of the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of the 54th AGM and the Annual Report for the financial year 2024-25 including therein the Audited Financial Statements for financial year ended 31st March, 2025, have been sent on 4th September, 2025 only by email to the Members whose email addresses are registered with the Company/Depository participants (DPs). The requirement of sending the physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report to the members has been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circulars. Additionally, a letter providing the web-link to access the Notice of the 54th AGM and the Annual Report is also being sent to those Members whose e-mail addresses are not registered with the Company/RTA or the DPs.
- Members holding equity shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 22nd September, 2025, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through remote e-voting / e-voting facility of MUFG Intime India Private Limited (formerly known as Link Intime India Private Limited), Registrar & Share Transfer Agent of the Company ("MUFG Intime/RTA). All members are informed that:
 - The Ordinary and the Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;
 - The remote e-voting shall commence on Thursday, 25th September, 2025 at 9:00 A.M. (IST);
 - The remote e-voting shall end on Sunday, 28th September, 2025 at 5:00 P.M. (IST);
 - The remote e-voting facility will be disabled by MUFG Intime after the aforesaid date and time. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
 - The cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-voting / e-voting during the AGM is 22nd September, 2025;
 - A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories, as on the cut-off date i.e. 22nd September, 2025, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / e-voting during the AGM.
 - Members who vote through remote e-voting would not be entitled for e-voting during the AGM.
 - A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.
 - Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. 22nd September, 2025, may obtain the User ID and password by sending a request at email: swapan@n.mgms.mufg.com.
 - However, a person who is already registered with MUFG Intime for e-voting then existing User ID and password can be used to cast the vote. In case of any queries or grievance pertaining to e-voting, the members may refer to the help section at <https://instavote.linkintime.co.in> or contact Mr. Swapan Kumar Naskar, Associate Vice President & Head (North India), MUFG Intime India Private Limited, Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH2 C1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110058 at Contact no. (011) 41410592/93/94 (Email: swapan@n.mgms.mufg.com) or contact the Company.
 - The Members holding shares in physical form who have not registered their email addresses with the Company and who wish to receive the Notice of the 54th AGM and the Annual Report for the year 2024-25 and/or login details for joining the 54th AGM through VC/OAVM facility including e-voting can now register their e-mail addresses with the Company. For this purpose, they can send scanned copy of signed request letter mentioning folio number, complete address and the email address to be registered along with self-attested copy of the PAN Card and any document supporting the registered address of the Member, by email to the Company at investorcare@nalwasons.com. Members holding shares in demat form are requested to register their email addresses with their DPs only.
 - Notice of AGM and the Annual Report is also available on the Company's website www.nalwasons.com and also on the MUFG Intime's website <https://instavote.linkintime.co.in>
 - Mr. Rajesh Garg of M/s. Rajesh Garg & Co., Practicing Company Secretary has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

This notice is also available on the website of the Company at www.nalwasons.com and on the website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed at www.nseindia.com and www.bseindia.com.

For Nalwa Sons Investments Limited
Sd/-
(Ajay Mittal)
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Hisar
Date: September 04, 2025

SHARE INDIA SECURITIES LIMITED

CIN : L57120GJ1994PLC115132
Corporate Office : A-15, Sector 64, Noida, Distt. Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh - 201301
Reg. Office : Unit no. 615 and 616, 6th Floor, X-Change Plaza, Dalal Street Commercial Co-operative Society Limited, Road 5E, Block 53, Zone 5, Gift City, Gandhinagar, Gujarat - 382050
Tel No. : +91-120-4910000; **Website:** www.shareindia.com; **E-mail ID:** secretarial@shareindia.com

PUBLIC NOTICE TO MEMBERS
Information regarding 31st Annual General Meeting

Notice is hereby given that the **31st Annual General Meeting ("AGM")** of Members of Share India Securities Limited ("Company") is scheduled to be held on **Monday, September 29, 2025 at 04:30 p.m.** (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as would be set forth in the Notice convening the said AGM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021, Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022, Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 read with SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023, SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars").

In compliance with the said MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of the 31st AGM along with the Annual Report of the Company for the financial year 2024-25 will be sent only by electronic mode to those Members whose names appear in the list of Beneficial Owners as received from National Securities Depository Limited (NSDL) / Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as on Friday, August 29, 2025.

The Notice of the 31st AGM and the Annual Report of the Company for the financial year 2024-25 will also be available on the Company's website at www.shareindia.com and on the website of the Stock Exchanges, viz. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com.

Members may note that the Board of Directors, at its meeting held on May 23, 2025, recommended a final dividend of Re. 0.25/- per equity share of face value of Rs. 2/- each for financial year 2024-25 to Members of the Company. Further, the Company has fixed Wednesday, September 10, 2025 as the Record Date for the purpose of ascertaining eligibility of shareholders for final dividend for the financial year 2024-25, once approved by the Members at the AGM.

To avoid delay in receiving dividend, Members are requested to update their KYC/Electronic Bank Mandate with their DPs to receive dividend directly into their bank account on the payout date. For Members who have not updated their bank account details with their DPs, dividend warrants/demand drafts/cheques will be sent out to their addresses registered with their DPs.

Members who wish to register/update their email addresses are requested to register/update the details in their demat account as per the process advised by their respective DPs.

The Company is providing remote e-voting facility before and during the AGM to its Members through CDSL to cast their votes. The detailed procedure for joining the AGM and e-voting would be set forth in the Notice of the AGM. Members whose e-mail ID is not registered with the DPs can obtain login credentials for e-voting by providing demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, Client master or copy of Consolidated Account Statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to the Company at secretarial@shareindia.com. The Company shall co-ordinate with CDSL and provide the login credentials to the above-mentioned Shareholders/Members.

For Share India Securities Limited
Sd/-
Vikas Aggarwal
Company Secretary & Compliance Officer
M. No.: F5512

Place : Noida
Date : September 04, 2025

INOX GREEN ENERGY SERVICES LIMITED

Regd. Off.: Survey No. 1837 & 1838 At Moje Jetalpur, ABS Towers, 2nd Floor, Old Padra Road, Vadodra, Gujarat-390007
CIN: L45207GJ2012PLC070279 | **Tel:** 0265-619811 | **Fax:** 0265-2310312 | **Email:** investor@inoxgreen.com | **Website:** www.inoxgreen.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS REGARDING 13th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the **Thirteenth Annual General Meeting (AGM)** of the Company will be held on **Friday, September 26, 2025 at 12:00 Noon (IST)** through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM) facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with relevant Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). Members will be able to attend the AGM through VC/ OAVM facility only.

The Notice of 13th AGM and the Annual Report of the Company for the Financial Year 2024-25 has been sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company or Depositories. Further, in accordance with Regulation 36(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a physical letter has been sent to the shareholders whose email addresses are not registered with the Company/ Depositories /RTA, providing a web-link and exact path for accessing the Annual Report FY 2024-25. These documents are also available on the websites of the Company; www.inoxgreen.com, Stock Exchanges i.e. BSE Limited; www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited; www.nseindia.com and National Securities Depository Limited (NSDL); www.evoting.nsdl.com. The Annual Report of the Company for the Financial Year 2024-25 can be accessed at

बैजनाथ में धूमधाम से किया गणेश विसर्जन
बैजनाथ। युवा गणेश महोत्सव बैजनाथ द्वारा वीरवार को 9 दिनों के बाद बिना नदी में गणेश विसर्जन कर दिया गया। विसर्जन से पहले शिव मंदिर पार्किंग के पडल में हवन के बाद विशाल मंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। गणपति गणवान की मूर्ति को आयोजनों द्वारा उत्साहपूर्वक पडल से उतारकर ट्रक में रखकर शोभा यात्रा की शुरुआत हुई, जो परिवहन निगम के चक्काप से लेकर बाजार होते हुए बिना नदी तक निकाली गई। विसर्जन से पूर्व विधिवत पूजा-अर्चना कर आयोजकों द्वारा डको फेसली बनाई गई गणपति की मूर्ति को पानी में विसर्जित कर दिया गया।

धर्मशाला शहर में आज से सुचारु पेयजल आपूर्ति

स्टोरेज टैंक भरने के साथ ही शुरू हो रही कई जगह पानी की सप्लाई

हिमाचल दस्तक ब्यूरो | धर्मशाला
जल शक्ति विभाग की पेयजल आपूर्ति लाइनों को पहुंचे नुकसान तथा लगातार बारिशों के क्रम के चलते धर्मशाला शहर में पानी की सुचारु आपूर्ति करना विभाग के लिए चुनौती बन गया है। जानकारी के अनुसार गुरुद्वारा रोड तथा खजांची मोहल्ला में पानी की आपूर्ति सुबह तथा शाम को की जाएगी। शहर के कुल 17 वार्डों में से तीन वार्डों के लोगों को सुचारु पेयजल आपूर्ति नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। शहर के सैक्रिफ्ट वार्ड, खेल परिसर वार्ड तथा कोतवाली में पानी की आपूर्ति न होने की समस्या है। वहीं फिलहाल जल शक्ति विभाग की ओर से शहर में एक दिन छोड़ कर पेयजल की



आपूर्ति की जा रही है। विभाग की मांगें तो शुक्रवार तक पानी की आपूर्ति को सुचारु कर दिया जाएगा। गुरुद्वारा रोड के लोगों को पिछले दो दिनों से पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा है तथा वीरवार को सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे पानी की आपूर्ति होने से लोगों को पानी की किल्लत से कुछ हद तक राहत मिली है।

शहर की सभी पेयजल योजनाओं को फिलहाल रिस्टोर कर दिया गया है। गुरुद्वारा रोड तथा कोतवाली में पेयजल आपूर्ति वीरवार को ही कर दी गई है। विभाग की पेयजल स्कीमों को पहुंचे नुकसान के चलते सभी योजनाओं की स्थायी रेस्टोरेशन तक शहर में एक दिन छोड़कर पेयजल आपूर्ति की जा रही है। 17 वार्डों में से तीन वार्डों में पानी की समस्या आ रही है। एक लाइन को चालू कर दिया गया है जिससे पूरे शहर में पानी की आपूर्ति हो सके।

-पंकज चौधरी, एसडीओ जल शक्ति विभाग, धर्मशाला।



हैप्पी बर्थ-डे
समीरपुर की शाइरा को जन्मदिन पर हिमाचल दस्तक की ओर से डेरों शुभकामनाएं।



हैप्पी बर्थ-डे
डमटाल की दिशिता को जन्मदिन पर हिमाचल दस्तक की ओर से डेरों शुभकामनाएं।

आइ-नॉक्स विंड लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नं. 1, खसरा नं. 264 से 267, इंडस्ट्रियल एरिया, गॉब बसल, जिला उना -174303, हिमाचल प्रदेश
सीआइएन: L31901HP2009PLC031083 | टेलीफोन/फैक्स: 01975 272001 | वेबसाइट: www.inoxwind.com | ई-मेल: investors.lw@inoxwind.com

शेयरधारकों हेतु 16वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा ई-वोटिंग से सम्बंधित जानकारी
एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी की सोलहवीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 26 सितम्बर, 2025 को अपराह्न 3:30 बजे (भारतीय मानक समय), कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के लागू होने योग्य प्रावधानों के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय एवं भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्गत प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में, विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो-विजुअल मींस (ओएवीएम) सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी। सदस्य केवल वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ही एजीएम में भाग लेने में सक्षम होंगे।

16वीं एजीएम की सूचना एवं वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष) 2024-25 हेतु कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को प्रेषित की गई है जिनका ईमेल पता कम्पनी अथवा डिपॉजिटरीयों के साथ पंजीकृत है। इसके अतिरिक्त, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, के विनियमन 36(1)(बी) के अनुसार, उन शेयरधारकों को एक भौतिक पत्र भेजा गया है जिनके ईमेल पते कम्पनी/ डिपॉजिटरी/ आरटीए के साथ पंजीकृत नहीं हैं, जिसमें वार्षिक रिपोर्ट वित्त वर्ष 2024-25 अभिगमित करने हेतु एक वेब-लिंक और सटीक पथ प्रदान किया गया है। ये दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.inoxwind.com; स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com; तथा नेशनल सिक्वोरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट https://inoxwind.com/uploads/2025/9/638926103805983128_Inox%20Wind%20Limited_Annual%20Report-2024-25.pdf पर देखी जा सकती है।

कम्पनी ने, कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 19 सितम्बर, 2025 के अनुसार, भौतिक अथवा डीमेट तौर पर शेयरों की प्रतिष्ठा करने वाले अपने सभी सदस्यों हेतु एजीएम में पारित होने वाले प्रस्तावों के सम्बन्ध में, एनएसडीएल के ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ई-वोटिंग सुविधा (रिमोट ई-वोटिंग) एवं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग) की व्यवस्था की है। केवल उपर्युक्त कट-ऑफ तिथि पर कम्पनी के शेयरों को प्रतिरक्षित रखने वाले सदस्य ही ई-वोटिंग सुविधा का लाभ पाने हेतु योग्य होंगे। वोटिंग का अधिकार (ई-वोटिंग सुविधा हेतु) कट-ऑफ तिथि के अनुसार कम्पनी के सदस्य(ओं) के नाम पर पंजीकृत शेयरों के प्रदत्त मूल्य पर आंकलित किया जाएगा। सभी योग्य सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे ई-वोटिंग सुविधा की समय-सारणी का ध्यान रखें:

विवरण	दिनांक
वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण पूर्ण होने की तिथि	सितम्बर 4, 2025
रिमोट ई-वोटिंग आरम्भ होने की तिथि एवं समय	सितम्बर 22, 2025, 9:00 बजे पूर्वाह्न (भारतीय मानक समय)
रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होने की तिथि एवं समय	सितम्बर 25, 2025, 5:00 बजे अपराह्न (भारतीय मानक समय)
एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की तिथि	सितम्बर 26, 2025
परिणाम की घोषणा की तिथि	एजीएम के समापन के 2 कार्य दिवस के अन्दर

सूचना के प्रेषण के पश्चात् कम्पनी के सदस्य बनने वाले सभी योग्य सदस्य एवं व्यक्ति, ई-वोटिंग सुविधा, वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे/ भाग लेने हेतु प्रणाली तथा सदस्यों का ईमेल पता एवं फोन नंबर पंजीकृत/ अद्यतन करने हेतु एजीएम की सूचना में उल्लिखित निर्देशों का पालन कर सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने वाले सदस्य वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से बैठक में उपस्थित हो सकते हैं, परन्तु एजीएम के दौरान पुनः अपना वोट डालने हेतु अधिकृत नहीं होंगे। सदस्य द्वारा एक बार डाले गए वोट को तदनन्तर उन्हें बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त समय-सारणी में निर्दिष्ट तिथि एवं समय के उपरान्त रिमोट ई-वोटिंग एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ई-वोटिंग से सम्बद्ध किसी भी शिकायत के सम्बन्ध में सदस्य, सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, "ए" विंग, 4वीं मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बायट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013, नामित ईमेल पता: evoting@nsdl.co.in अथवा दूरभाष: 022-48867000 से संपर्क कर सकते हैं।

कृते आइ-नॉक्स विंड लिमिटेड
हस्ता/-
स्थान : नोएडा
दिनांक : 4 सितम्बर, 2025
दीपक बागा
कम्पनी सचिव

पालमपुर में जैव संसाधनों के संरक्षण के बारे में किया जागरूक

हिमाचल दस्तक | पालमपुर

सीएसआईआर - हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में आयोजित दो दिवसीय, हिमालयी जैवसंसाधनों के सतत विकास और संरक्षण के लिए बहु-विषयक दृष्टिकोण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी वीरवार को संपन्न हुई। यह छत्र-पेरित पहल डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी, जिसमें देशभर से 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। सीएसआईआर-आईएचबीटी के निदेशक डॉ. सुदेश कुमार यादव ने अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए संस्थान की



नवीनतम गतिविधियों के बारे में जानकारी दी और जैव संसाधनों के संरक्षण और जैव आर्थिकों में उसके योगदान पर प्रकाश डाला। डॉ. राकेश सहगल, एनआईटी, हमीरपुर ने इस आयोजन तथा संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। पहले सत्र में आईआईएफएम भोपाल के डॉ. सीपी काला ने अल्ट्राइन चारागाहों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र की भूमिका पर मुख्य व्याख्यान दिया। दूसरे सत्र में एचएपीपीआरसी, उत्तराखंड के डॉ. वीके पुरोहित ने उच्च हिमालयी औषधीय पौधों और उनके महत्व पर प्रकाश डाला। महाराष्ट्र की राइज एंड शाइन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के ललित अवहद ने जीव विज्ञान में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों पर चर्चा की। तीसरे सत्र में नई दिल्ली जेएनयू से आए डॉ. पीके चर्मा ने पादप कोशिका और आणविक विज्ञान पर विशेषज्ञ वक्तव्य प्रस्तुत किया। संगोष्ठी के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, प्रस्तुतियां, पोस्टर और मीम्स के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया।

पंजाब निवासी फौजी के खिलाफ दुराचार का केस दर्ज

धर्मशाला। महिला पुलिस थाना धर्मशाला में एक युवती ने पंजाब निवासी के खिलाफ दुराचार का मामला दर्ज कराया है। युवती की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार शिकायत के अनुसार शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। बताते चलें कि उक्त आरोपी को पोलिसिंग पहले कांगड़ा जिला में ही थी तथा उसने ही युवती को वॉटर लेकर दिया था तथा जहां वो आता जाता रहता था। उधर एसपी धर्मशाला वीर बहदुर ने मामले को पुष्टि की है।

आपदा प्रभावितों को राहत सामग्री रवाना की



पंचरुखी। चंबा में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के तीनों भाजपा मंडलों ने एक सहायक पहल करते हुए क्षेत्र के पूर्व विधायक रविंद्र धीमान के नेतृत्व में जयसिंहपुर के लिए एक ट्राला राहत सामग्री का भेजा। इस अवसर पर पूर्व विधायक कल कि आपदा की इस घड़ी में भाजपा का हर कार्यकर्ता हस्तक्षेप सहायता के लिए तत्पर है और पीड़ित परिवारों को अकेला महसूस नहीं होने देंगे। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष जयसिंहपुर देवेंद्र राणा, भाजपा आलमपुर मंडल अध्यक्ष हनुमंत शर्मा, बीडीसी घेयारमैन कुलवंत राणा, जिला परिषद सजीव टाकुर, अशोक कटोय, प्रदीप राणा, मंडल मजदूरी राजेश सुवगा, हरिदास आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

वीएमआई ने आपदा राहत कोष में दिए 5.21 लाख

पालमपुर। विवेकानंद मेडिकल इंस्टिट्यूट (वीएमआई), पालमपुर ने अपने अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री शांत कुमार के मार्गदर्शन और प्रेरणा से हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में 5.21 रुपये लाख का योगदान किया है। यह राशि एचए कनोडोर (डॉ.) विमल दुबे, प्रमुख, विवेकानंद मेडिकल इंस्टिट्यूट द्वारा डिमांड ड्राफ्ट के रूप में उपमंडलाधिकारी पालमपुर नेत्रा मेता को भेज दी गई। इस योगदान में केवल प्रबंधन ही नहीं, बल्कि पूरा वीएमआई परिवार, कंसल्टेंट्स, चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल, सहाय्योगी कर्मचारी एवं आउटरीच स्टॉफ ने स्वेच्छा से अपना अदान दिया। प्रबंधन ने भी इसमें सहयोग जोड़कर इसे सामूहिक प्रतिबद्धता और एकजुटता का प्रतीक बनाया। इस अवसर पर डॉ. विमल दुबे ने कहा कि यह हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ खड़े होने का हमारा छोट-सा प्रयास है।

कांगड़ा में 579 शतकवीर मतदाता : डीसी

धर्मशाला। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी कांगड़ा हमाराम बैरवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला में 100 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के मतदाताओं की मतदाता सूची प्रविष्टियों का विशेष सत्यापन किया जाएगा। इस संबंध में सभी सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे मतदाताओं का व्यक्तिगत सत्यापन करें और आवश्यकतानुसार सुसारात्मक कदम उठाएं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिला में 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के 579 मतदाताओं के नाम सूची में हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को और अधिक शुद्ध व पारदर्शी बनाना है।

जन्मदिन पर पीड़ितों को सवा लाख की मदद देने शांता पालमपुर।

पालमपुर। पूर्व मुख्यमंत्री मंत्री शांता कुमार ने कहा कि दुर्भाग्य से हिमाचल प्रदेश की आपदा दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, परंतु इस बात की सुधी है कि प्रदेश में हजारों लोग पीड़ितों की हर प्रकार की सहायता करने में जुटे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुखरू, नेता प्रतिपक्ष नरयाम टाकुर, सांसद अनुराग टाकुर तथा सभी नेताओं का भी बहुत धन्यवाद किया है जो दिन-रात पीड़ितों की हर प्रकार की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सबसे अनुरोध किया है कि बाकी सब बातों को एक तरफ रखकर केवल और केवल पीड़ितों की मदद करने पर सब ध्यान दें। शांता कुमार ने कहा कि मुझे खुशी है कि विवेकानंद अस्पताल, कायाकल्प, विश्रान्ति, सौरभ कॉलिया नर्सिंग कॉलेज तथा मे इस समय तक 6 लाख 75 हजार रुपये की राशि राहत कोष में भेज चुके हैं। उन्होंने कहा कि 12 सितंबर को अपने जन्मदिन पर पूजा करने के बाद मैं सबसे पहला काम यह करना कि मुख्यमंत्री राहत कोष में विवेकानंद ट्रस्ट की ओर से 3 लाख और अपनी ओर से एक लाख 25 हजार रुपये और भेजूंगा। इस प्रकार विवेकानंद परिवार की तरफ से राहत कोष में 11 लाख रुपये का योगदान हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के उन समर्थ लाखों लोगों से उन्होंने विशेष आग्रह किया है कि जिन्होंने अभी तक राहत कोष में सहायता नहीं की है वे सब शीघ्र राहत कोष में अपना योगदान करें।

डलहौजी रामा नाटक चल बने बैठक में किया मंथन

डलहौजी। रामा नाटक चल बने बैठक में पिछले कई सालों से चली आ रही परंपरा को बरकरार रखते हुए रामलीला के बारे में बैठक की। रामा नाटक चल बने के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने बताया कि इस बार भी रामलीला बड़े ही श्रद्धाभाषपूर्वक मनाई जाएगी, जिसका शुभारंभ 22 सितंबर को पहले नवरात्र से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बैठक के बाद रामलीला के सभी सदस्यों से आग्रह किया कि रामलीला के कलाकारों द्वारा इसका अभ्यास शुरू कर दिया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में हम अभ्यास अनुसार रामलीला शुरू कर सकें।

अनु. जाति अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण (हि.प्र.) शिमला -9

प्रमुख योजनाएं

सुखविंद सिंह सुखरू
माननीय मुख्यमंत्री, हि.प्र.

सामाजिक सुरक्षा पेंशन

सामाजिक सम्मान व सुरक्षा के दृष्टिगत आर्थिक सबलता हेतु 8,31,417 बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं, एकलनारी, कुष्ठरोगी एवं ट्रांसजेंडर को बिना आय सीमा के सभी औपचारिकताओं का सरलीकरण करके 1000/- रु. से 1700/- रु. तक की मासिक पेंशन।

स्वर्णजयन्ती आश्रय योजना

अनु. जाति, अनु.जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आश्रयहीन स्थाई निवासियों को आश्रय निर्माण हेतु 1,50,000/- रु. अनुदान राशि हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में मु. 6.00 करोड़ का बजट प्रावधान।

दृष्टिहीन व मूकबधिर बच्चों हेतु विशेष स्कूल योजना

मूकबधिर / दृष्टिबाधित दिव्यांगों को 10+2 तक आवासीय सुविधा सहित निःशुल्क गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने हेतु सुंदरनगर (मण्डी) व ढली (शिमला) में विशेष स्कूल संचालन।

दिव्यांग छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति

दिव्यांगों को निर्बाध शैक्षणिक तथा व्यवसायिक शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रोत्साहन राशि के रूप में बिना आय सीमा के 5000/- रु. तक मासिक छात्रवृत्ति का प्रावधान।

दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना

दिव्यांगों को समाज में सम्मान सहित समानता प्रदान करने के उद्देश्य से दिव्यांगों से विवाह हेतु प्रोत्साहनार्थ 50000/- रु. तक की पुरस्कार राशि का प्रावधान।

मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना

आदर्श ग्राम सुखाश्रय परिसर निर्माण द्वारा प्रदेश के निरक्षित बच्चों, विधवा, परित्यक्त एवं एकलनारी, अनाथ एवं दिव्यांग बच्चों को सम्मान, सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण जीवन-यापन के लिए निःशुल्क सर्वश्रेष्ठ सुविधाओं हेतु योजना। विशेषगृह/सुसम्मान आवासियों को व्यक्तिगत 500/- रु. प्रति तथा संस्थानों को 10,000/- रु. तक त्यौहार भत्ते का प्रावधान।

वशिष्ट दिव्यांग पहचानपत्र (UDID)

101415 दिव्यांगों को वशिष्ट दिव्यांग पहचानपत्र (UDID) प्रदान कर सभी कल्याणकारी योजनाओं एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण हेतु पात्रता का लाभ।

अन्तर्जातीय विवाह पुरस्कार योजना

जातिगत समरसता व सामाजिक सद्भाव के दृष्टिगत अन्तर्जातीय विवाह पुरस्कार योजना के तहत 50,000/-रु. पुरस्कार राशि का प्रावधान।

राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम

18 से 59 वर्ष आयुवर्ग के गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु पर आश्रितों को 20,000/- रु. की त्वरित राहत राशि का प्रावधान।

कम्प्यूटर एप्लीकेशन व समन्वयिका-कलापों में प्रशिक्षण एवं दक्षता योजना

हिमाचल के बी.पी.एल. परिवार व 2 लाख रु. से कम वार्षिक आय वाले 18 से 35 वर्ष आयुवर्ग के अनु.जाति, अनु.जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, विधवा, परित्यक्त, एकलनारी, दिव्यांग एवं अल्पसंख्यक जो प्रशिक्षण हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखते हैं को कम्प्यूटर उपयोग व समवर्गीय क्रियाकलापों में प्रशिक्षण।

इंदिरा गांधी प्याही बहना सुख-सम्मान निधि योजना

राज्य सरकार द्वारा नारी की आर्थिक सुदृढ़ता एवं परिवार में सम्मानजनक उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु नई योजना इंदिरा गांधी महिला सम्माननिधि योजना 2023 अधिसूचित कर 18-59 आयुवर्ग की महिलाओं को 1500/- रु. प्रतिमाह की दर से सम्मान निधि का प्रावधान किया गया।